

पाठ 2. सूक्ष्मजीव : मित्र एवं शत्रु

अध्याय-समीक्षा:

- ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते , जिन्हें यन्त्र से देखा जा सकता है , सूक्ष्म जीव कहलाते हैं ।
- सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बाँटा गया है : (i) जीवाणु (ii) कवक (iii) प्रोटोजोवा (iv) शैवाल
- विषाणु (वायरस) भी सूक्ष्म होते हैं परन्तु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं ।
- कुछ विषाणु जनित रोग जैसे – जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी एड्स आदि ।
- वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं ।
- ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है तथा प्राचीन कल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने किया जाता है ।
- कुछ सूक्ष्मजीव मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं ।
- लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु हैं ।
- यीस्ट श्वसन के दौरान कार्बन-डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं ।
- किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है । इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं ।
- ऐसी औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है , एंटीबायोटिक कहलाती है ।
- पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि ।
- सन 1929 में अलैक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की ।
- शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है । हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है ।
- सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचारणीय रोग कहलाते हैं । जैसे—हैजा , खांसी आदि ।
- पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे , मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण हैं । सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं ।
- यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जन्तुओं दुर्गन्धुक्त पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग किये जाते हैं ।
- वायुमंडल में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है ।
- संचरणीय रोग का मुख्य कारक घरेलू मक्खी है ।
- मलेरिया रोग का वाहक का मादा एनाफिलस मच्छर लिखिए ।
- यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड या इडली फूलते हैं ।
- डेंगू के वायरस का वाहक का मादा एडिस मच्छर हैं ।
- नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है । अतः इन्हें **परिरक्षक** कहते हैं ।
- दूध को 70° C पर 15-30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं फिर एकाएक ठंडा कर उसे भण्डारण कर लेते हैं ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है इस प्रक्रिया को **पास्चरीकरण** कहते हैं ।

- ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट आकर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं।
- प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी।

अभ्यास :

Q1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

- (क) सूक्ष्मजीवों को _____ की सहायता से देखा जा सकता है।
- (ख) नील-हरे शैवाल वायु से _____ का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है।
- (ग) एल्कोहल का उत्पादन _____ नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है।
- (घ) हैजा _____ के द्वारा होता है।

उत्तर:

- (क) सूक्ष्मदर्शी
- (ख) नाइट्रोजन
- (ग) यीस्ट
- (घ) घरेलू मक्खी

Q2. सही शब्द के आगे (✓) का निशान लगाइए -

(क) यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है:

- (i) चीनी (ii) एल्कोहल (iii) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (iv) ऑक्सीजन

उत्तर: (ii) एल्कोहल

(ख) निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है?

- (i) सोडियम बाइकार्बोनेट
- (ii) स्ट्रेप्टोमाइसिन
- (iii) एल्कोहल
- (iv) यीस्ट

उत्तर: (ii) स्ट्रेप्टोमाइसिन

(ग) मलेरिया परजीवी का वाहक है:

- (i) मादा एनॉफ़िलीज मच्छर
- (ii) कॉकरोच
- (iii) घरेलू मक्खी

(iv) तितली

उत्तर: (i) मादा एनॉफ्रलीज मच्छर

(घ) संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है:

(i) चींटी

(ii) घरेलू मक्खी

(iii) ड्रेगन मक्खी

(iv) मकड़ी

उत्तर: (ii) घरेलू मक्खी

(ङ) ब्रेड अथवा इडली फुल जाती है इसका कारण है:

(i) ऊष्णता

(ii) पीसना

(iii) यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि

(iv) माढ़ने के कारण

उत्तर: (iii) यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि

(च) चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है:

(i) नाइट्रोजन स्थिरीकरण

(ii) मोल्टिंग

(iii) किण्वन

(iv) संक्रमण

उत्तर: (iii) किण्वन

3. कॉलम-I के जीवों का मिलान कॉलम-II में दिए गए उनके कार्य से कीजिए ।

कॉलम-I	कॉलम-II
(क) जीवाणु	(i) नाइट्रोजन स्थिरीकरण
(ख) राइजोबियम	(ii) दही का जमना
(ग) लैक्टोबेसिलस	(iii) ब्रेड की बेकिंग
(घ) यीस्ट	(iv) मलेरिया का कारक
(ङ) एक प्रोटोजोआ	(v) हैजा का कारक

(च) एक विषाणु	(vi) AIDS का कारक
	(vii) प्रतिजैविक उत्पादित करना

उत्तर:

कॉलम-I	कॉलम-II
(क) जीवाणु	(v) हैजा का कारक
(ख) राइजोबियम	(i) नाइट्रोजन स्थिरीकरण
(ग) लैक्टोबेसिलस	(ii) दही का जमना
(घ) यीस्ट	(iii) ब्रेड की बेकिंग
(ङ) एक प्रोटोजोआ	(iv) मलेरिया का कारक
(च) एक विषाणु	(vii) प्रतिजैविक उत्पादित करना
	(vi) AIDS का कारक

Q4. क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। यदि नहीं, तो वे कैसे देखे जा सकते हैं ?

उत्तर: सूक्ष्मजीव बिना यन्त्र की सहायता से देखे नहीं जा सकते हैं, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है।

Q5. सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन-कौन से हैं?

उत्तर:

(i) बैक्टीरिया (ii) कवक या फंजाई (iii) शैवाल (iv) प्रोटोजोवा

Q6. वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए।

उत्तर: वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीवों के नाम हैं:

(i) राइजोबियम (ii) नील-हरे-शैवाल

Q7. हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए।

उत्तर: बहुत से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं :

(i) लैक्टोबेसिलस एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी है।

(ii) यीस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्मजीव है जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है।

(iii) यीस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही एल्कोहल बनाने में किया जाता है।

- (iv) राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है ।
- (v) कार्बोनिक अपशिष्ट जैसे - सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है ।
- (vi) जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है।
- (vii) स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है।
- (viii) पेनिसिलम नामक फफूंद से 'पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाई जाती है ।
- (ix) पशु आहार एवं वुफकुफट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है।
- (x) प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्मजीवों को शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है जिससे पोलियो, क्षय चेचक तथा हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन (टिका) बनाया जाता है ।

Q8. सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए।

उत्तर: सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं :

- (i) कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं।
- (ii) कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं।
- (iii) संक्रमण होने पर ये सूक्ष्मजीव तेजी से फैलते हैं और दुसरे मनुष्य या जीवों में भी रोग पैदा करते हैं ।
- (iv) मादा एनाप्लीज और एडिस मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लैजमोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक है । इन जीवों से मलेरिया एवं डेंगू हो जाता है ।
- (v) एंथ्रेक्स, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुँह का रोग वायरस द्वारा होता है।
- (vi) अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है।
- (vii) हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी-कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं ।

Q9. प्रतिजैविक क्या हैं? प्रतिजैविक लेते समय कौन-सी सावधानियाँ रखनी चाहिए?

उत्तर: ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट आकर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है । प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है । प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी ।

अतिरिक्त-प्रश्नोत्तर

प्रश्न: सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं ?

उत्तर: ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते , जिन्हें यन्त्र से देखा जा सकता है , सूक्ष्म जीव कहलाते हैं ।

प्रश्न: सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बाँटा गया है ?

उत्तर: सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बाँटा गया है ।

1. जीवाणु
2. कवक
3. प्रोटोजोवा
4. शैवाल

प्रश्न: विषाणु (वायरस) क्या होते हैं ? विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम बताइये ।

उत्तर: विषाणु (वायरस) भी सूक्ष्म होते हैं परन्तु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं अर्थात् शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं । कुछ विषाणु जनित रोग जैसे – जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी एड्स आदि ।

प्रश्न: मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं ? ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं ?

उत्तर: वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं । ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है तथा प्राचीन कल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने किया जाता है । कुछ सूक्ष्मजीव मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं ।

प्रश्न: दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइये ।

उत्तर: लैक्टोबैसिलस जीवाणु ।

प्रश्न: यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं ?

उत्तर: कार्बन-डाइऑक्साइड गैस ।

प्रश्न: उस प्रक्रिया का नाम बताइये जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है ?

उत्तर: किण्वन प्रक्रिया ।

प्रश्न: किण्वन क्या है ?

उत्तर: किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है । इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं ।

प्रश्न: एंटीबायोटिक क्या है ?

उत्तर: ऐसी औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है , एंटीबायोटिक कहलाती है ।

प्रश्न: जीवाणुओं और कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम लिखिए ।

उत्तर: पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि ।

प्रश्न: पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की ?

उत्तर: सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की ।

प्रश्न: शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है ?

उत्तर: शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है । हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है ।

प्रश्न: संचरणीय रोग किसे कहते हैं ?

उत्तर: सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे—हैजा, खांसी आदि।

प्रश्न: जैविक नाइट्रोजन स्थिरिकारक का नाम लिखिए।

उत्तर: राइजोबियम जीवाणु एवं नील हरित शैवाल।

प्रश्न: नाइट्रोजन स्थरीकरण से मृदा को क्या फायदा होता है।

उत्तर:

(1) मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है।

(2) उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है।

प्रश्न: सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हैं ?

उत्तर: पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जन्तुओं दुर्गन्धुक्त पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग किये जाते हैं।

प्रश्न: वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है ?

उत्तर: 78 प्रतिशत।

प्रश्न: संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है ?

उत्तर: घरेलू मच्छी।

प्रश्न: मलेरिया रोग का वाहक का नाम लिखिए।

उत्तर: मादा एनाफिलिज मच्छर।

प्रश्न: ब्रेड या इडली के फूलने का क्या कारण है ?

उत्तर: यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि।

प्रश्न: डेंगू के वायरस का वाहक का नाम लिखिए।

उत्तर: मादा एडिस मच्छर।

प्रश्न: मच्छर फैलाने से रोकने के कोई तीन उपाए सुझाये।

उत्तर: मच्छर फैलाने से रोकने के कोई तीन उपाए निम्न हैं।

1. हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए।
2. इक्कठा हुए पानी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए।
3. अपने आस पास के जगहों को साफ रखना चाहिए।

प्रश्न: टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए।

उत्तर: इस रोग का संचरण जल के द्वारा होता है ।

प्रश्न: हैजा रोग के संचरण का तरीका लिखिए ।

उत्तर: इस रोग का संचरण जल/भोजन के द्वारा होता है ।

प्रश्न: परिरक्षक किसे कहते हैं ?

उत्तर: नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है । अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं ।

प्रश्न: पास्चरीकरण (posturisation) किसे कहते हैं ?

उत्तर: दूध को 70° C पर 15-30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं फिर एकाएक ठंडा कर उसे भण्डारण कर लेते हैं ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है इस प्रक्रिया को पास्चरीकरण कहते हैं ।

प्रश्न: एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है ? प्रतिजैविक लेते समय कौन-सी सावधानियाँ रखनी चाहिए ।

उत्तर: ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट आकर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं । प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं । प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी ।

अतिरिक्त-प्रश्नोत्तर

प्रश्न: सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं ?

उत्तर: ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते , जिन्हें यन्त्र से देखा जा सकता है , सूक्ष्म जीव कहलाते हैं ।

प्रश्न: सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बाँटा गया है ?

उत्तर: सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बाँटा गया है ।

1. जीवाणु
2. कवक
3. प्रोटोजोवा
4. शैवाल

प्रश्न: विषाणु (वायरस) क्या होते हैं ? विषाणु से होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम बताइये ।

उत्तर: विषाणु (वायरस) भी सूक्ष्म होते हैं परन्तु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं और शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं अर्थात् शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं । कुछ विषाणु जनित रोग जैसे – जुकाम, इन्फ्लुएंजा, एड्स एवं खांसी एड्स आदि ।

प्रश्न: मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं ? ये हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं ?

उत्तर: वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं और जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं । ये हमारे दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है तथा प्राचीन कल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने किया जाता है । कुछ सूक्ष्मजीव मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं ।

प्रश्न: दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइये ।

उत्तर: लैक्टोबैसिलस जीवाणु ।

प्रश्न: यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं ?

उत्तर: कार्बन-डाइऑक्साइड गैस ।

प्रश्न: उस प्रक्रिया का नाम बताईये जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है ?**उत्तर:** किण्वन प्रक्रिया ।

प्रश्न: किण्वन क्या है ?

उत्तर: किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है । इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं ।

प्रश्न: एंटीबायोटिक क्या है ?

उत्तर: ऐसी औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है , एंटीबायोटिक कहलाती है ।

प्रश्न: जीवाणुओं और कवकों से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम लिखिए ।

उत्तर: पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन आदि ।

प्रश्न: पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की ?

उत्तर: सन 1929 में अलैक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की ।

प्रश्न: शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है ?

उत्तर: शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है । हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है ।

प्रश्न: संचरणीय रोग किसे कहते हैं ?

उत्तर: सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं । जैसे—हैजा , खांसी आदि ।

प्रश्न: जैविक नाइट्रोजन स्थिरिकारक का नाम लिखिए ।

उत्तर: राइजोबियम जीवाणु एवं नील हरित शैवाल ।

प्रश्न: नाइट्रोजन स्थरीकरण से मृदा को क्या फायदा होता है ।

उत्तर:

(1) मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है ।

(2) उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है ।

प्रश्न: पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है ?

उत्तर: पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे , मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण हैं । सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं । यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जन्तुओं दुर्गन्धुक्त पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग किये जाते हैं ।

प्रश्न: वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है ?

उत्तर: 78 प्रतिशत ।

प्रश्न: संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है ?

उत्तर: घरेलू मच्छी ।

प्रश्न: मलेरिया रोग का वाहक का नाम लिखिए ।

उत्तर: मादा एनाफिलिज मच्छर ।

प्रश्न: ब्रेड या इडली के फूलने का क्या कारण है ?

उत्तर: यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि ।

प्रश्न: डेंगू के वायरस का वाहक का नाम लिखिए ।

उत्तर: मादा एडिस मच्छर ।

प्रश्न: मच्छर फैलाने से रोकने के कोई तीन उपाय सुझाये ।

उत्तर: मच्छर फैलाने से रोकने के कोई तीन उपाय निम्न हैं ।

1. हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए ।
2. इक्कठा हुए पानी में मिट्टी का तेल या पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए।
3. अपने आस पास के जगहों को साफ रखना चाहिए ।

प्रश्न: टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए ।

उत्तर: इस रोग का संचरण जल के द्वारा होता है ।

प्रश्न: हैजा रोग के संचरण का तरीका लिखिए ।

उत्तर: इस रोग का संचरण जल/भोजन के द्वारा होता है ।

प्रश्न: परिरक्षक किसे कहते हैं ?

उत्तर: नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए एवं लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है । अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं ।

प्रश्न: पास्चरीकरण (pasteurisation) किसे कहते हैं ?

उत्तर: दूध को 70°C पर 15-30 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं फिर एकाएक ठंडा कर उसे भण्डारण कर लेते हैं ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है इस प्रक्रिया को पास्चरीकरण कहते हैं ।

प्रश्न: एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है ? प्रतिजैविक लेते समय कौन-सी सावधानियाँ रखनी चाहिए ।

उत्तर: ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट आकर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं । प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं । प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी ।

प्रश्नोत्तर

Q1. विषाणुओं को सूक्ष्मजीवों से भिन्न क्यों रखा गया है ?

- Q2. वायरस (विषाणुओं) से होने वाले कुछ रोगों के नाम बताइए ?
- Q3. अतिसार एवं मलेरिया जैसे रोग किन सूक्ष्मजीवों के कारण होता है ?
- Q4. एककोशिक सूक्ष्मजीवों के नाम बताइए ?
- Q5. दो बहुकोशिक सूक्ष्मजीवों के नाम बताइए ?
- Q6. उन सूक्ष्मजीवों के एक-एक उदाहरण दीजिये जो-
- (i) अकेले रह सकता है ।
- (ii) जो समूह में रहते हैं ।
- Q7. पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सूक्ष्मजीव कैसे उपयोगी हैं ?
- Q8. दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम बताइए ?
- Q9. सूक्ष्मजीवों के वाणिज्यिक उपयोग क्या है ?
- Q10. सूक्ष्मजीवों से उत्पादित किये जाने वाले कुछ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का नाम लिखिए ?
- Q11. सूक्ष्मजीवों से प्रतिजैविक का उत्पादन कैसे किया जाता है ?
- Q12. पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की ?
- Q13. पेनिसिलिएम क्या है ?
- Q15. पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक क्यों मिलाए जाते हैं?
- Q16. प्रतिरक्षीकरण का क्या सिद्धांत है ?
- Q17. वैक्सीन किसे कहते हैं ? कुछ वैक्सीनों के नाम लिखिए ।
- Q18. टिके के तीन उपयोग लिखिए ।
- Q19. नाइट्रोजन स्थिरीकरण के तीन लाभ लिखिए ।
- Q20. जैविक नाइट्रोजन स्थिरिकारक किसे कहते हैं ?